



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 19, 2018 (JYAISTHA 29, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जून, 2018

**सं० 13/1/2018-3परि (1).**— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या एस०ओ० 87/सी०ए० 59/1988/एस० 68/2010 दिनांक 17.08.2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

1. हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या एस०ओ० 87/सी०ए० 59/1988/एस० 68/2010 दिनांक 17.08.2010 में तालिका में क्रम संख्या 21 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी:—

क्रम संख्या	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण	क्षेत्र (जिला)
1	2	3
22.	प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, चरखी दादरी	चरखी दादरी

2. उक्त तालिका के नीचे, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:—

परन्तु गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर, गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण के तौर पर संचालित बाहरी बस सेवाओं के सम्बन्ध में गाड़ियों के मंजिली परमिट प्रदान करने हेतु मार्गों/क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने, गाड़ियों के मंजिली परमिट जारी/प्रदान करने, समय सारणी, कर्मिंदल का कार्य समय तथा पार्किंग स्थलों को विनिश्चित करने हेतु, शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

धनपत सिंह,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
परिवहन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****TRANSPORT DEPARTMENT****Notificaiotn**

The 19th June, 2018

**No. 13/1/2018-3T(I).**—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) and Sub-section (2) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Transport Department, Notification No. S.O. 87/C.A.59/1988/S.68/2010 dated 17.08.2010, namely:-

**Amendment**

- (i) In the Haryana Government, Transport Department, Notification No. S.O. 87/C.A. 59/1988/S. 68/2010 dated 17.08.2010 in the table under serial number 21, the following entries shall be made namely:-

<b>Serial Number</b>	<b>Regional Transport Authorities</b>	<b>Areas (District)</b>
1	2	3
22.	Regional Transport Authority, Charkhi Dadri	Charkhi Dadri

- (ii) Below the said table, the following proviso shall be added:-

Provided that Gurugram Metropolitan Development Authority shall act as Regional Transport Authority within its jurisdiction to exercise the powers and discharge the duties to specify the routes/areas for the grant of Stage Carriage Permits, issue/grant of stage carriage permits, deciding and issuance of time table, working hours of the crew, and parking places with respect to the City Bus Services operated by Gurugram Metropolitan City Bus Limited being a State Transport Undertaking.

DHANPAT SINGH,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Transport Department.